



क्या मेरा परिवार आर्थिक सहायता का पात्र हो सकता है, भले ही मेरे नियोक्ता के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य बीमा की पेशकश की जाती हो?

अगर आपको लगता है कि आप या आपके परिवार के सदस्य वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं, तो आवेदन करने में सहायता प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ हेल्थ (NY State of Health) से संपर्क करें:

📍 ऑनलाइन:
nystateofhealth.ny.gov

📞 फ़ोन द्वारा:
 1-855-355-5777 या
 TTY: 1-800-662-1220

🗺️ मिलकर:
 किसी प्रमाणिक सहायक से निःशुल्क सहायता

NY State of Health लागू संघीय नागरिक अधिकारों के कानून और राज्य कानूनों के अनुपालन के तहत जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, संप्रदाय/धर्म, लिंग, आयु, वैवाहिक/पारिवारिक स्थिति, गिरफ्तारी के रिकॉर्ड, आपराधिक दोष, लिंग की पहचान, लैंगिक झुकाव, पूर्वनिर्धारित आनुवंशिक विशेषताओं, सैन्य स्थिति, घरेलू हिंसा पीड़ित की स्थिति और/या प्रतिशोध के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

परिवार स्वास्थ्य बीमा कवरेज अधिक किफायती हो रहा है

NY State of Health के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए नया पात्रता नियम

- 1 जनवरी, 2023 से, परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता की पात्रता नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले पारिवारिक कवरेज के सामर्थ्य पर आधारित होगी।
- अगर प्र तीमियम परिवार की कुल आय के 8.39 प्रतिशत से कम है, तो परिवार स्वास्थ्य योजना को "किफायती" माना जाएगा।
- यदि पारिवारिक कवरेज को महंगा माना जाता है, तो परिवार के सदस्य वित्तीय सहायता के लिए अहटकता प्राप्त कर सकते हैं।
- यह कमटकचारियों के लिए सामर्थ्य परीक्षण नहीं बदलता है। अगर कमटकचारी अपने नियोक्ता द्वारा किफायती एकल (केवल-कमटकचारी) कवरेज प्राप्त कर सकता है, तो वह NY State of Health द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, परिवार के सदस्य अभी भी पात्र हो सकते हैं।

2023 से पहले वित्तीय सहायता पात्रता नियम

- 2023 तक, स्वास्थ्य बीमा को एकल (केवल-कर्मचारी) कवरेज की लागत के आधार पर "किफायती" माना जाता है।
- तब तक, अगर एकल (केवल-कर्मचारी) कवरेज के लिए प्रीमियम कर्मचारी की पारिवारिक आय के 9.61 प्रतिशत से कम है, तो इसे "किफायती" माना जाएगा। कर्मचारी जिन्हें अपने नियोक्ता से किफायती स्वास्थ्य बीमा मिल सकता है वे NY State of Health योजना के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्र नहीं होंगे।
- यदि कोई कर्मचारी इस नियम के आधार पर NY State of Health द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं है, तो कर्मचारी के परिवार के सदस्य भी NY State of Health द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। यह तब भी लागू होता है जब किसी नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिवारिक स्वास्थ्य योजना की लागत परिवार की आय के 9.61 प्रतिशत से अधिक हो।

आप क्या कर सकते हैं?

- NY State of Health वित्तीय सहायता कैल्क्यूलेटर टूल का उपयोग करें: <https://info.nystateofhealth.ny.gov/estimate-financial-assistance>
- यह टूल हमें यह अनुमान लगाने देता है कि आप या आपके परिवार के सदस्य वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं या नहीं। आपके द्वारा आवेदन करने पर आपकी वास्तविक पात्रता निर्धारित की जाएगी।